



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1946 (श10)

(सं० पटना 43) पटना, वृहस्पतिवार, 16 जनवरी 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

31 दिसम्बर 2024

सं० 1स्था0-33/2024-3528/वि0स0—बिहार विधान सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-927, दिनांक 13.03.2024 द्वारा संविदा के आधार पर निदेशक एवं अन्य पदों पर नियोजन हेतु गठित चयन समिति की दिनांक 30.12.2024 की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000, दिनांक 10.07.2015 एवं परिपत्र संख्या-11398, दिनांक 23.08.2016 तथा सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-3497, दिनांक 26.12.2024 द्वारा निर्गत “बिहार विधान सभा सचिवालय (संविदा आधारित नियोजन की पद्धतियाँ) आदेश, 2024” में किये गये प्रावधान के तहत सभा सचिवालय में वरीय प्रतिवेदक के पद से दिनांक 31.12.2024 को सेवानिवृत्त होने वाले श्री मधुप कुमार को वरीय प्रतिवेदक के पद पर दिनांक 01.01.2025 से अगले एक वर्ष यानि 31.12.2025 तक संविदा आधारित नियोजन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

- (क) यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष अथवा प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा ।
- (ख) संकल्प की कंडिका-3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी ।
- (ग) संकल्प की कंडिका-3(5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
- (घ) संकल्प की कंडिका-3(6)(i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा । कंडिका-3(6)(ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा । कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा ।

मानदेय का भुगतान सभा सचिवालय के मुख्य बजट शीर्ष के विपत्र कोड के अंतर्गत सविदा सेवायें के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(च) संकल्प की कंडिका-(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

(छ) संकल्प की कंडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भौति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
सुधीर कुमार सिंह,
अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 43-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>